



केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन  
मुख्यालय कार्यालय, प्रयागराज  
जनसम्पर्क विभाग

सं. कोर/जी/पीआर/10/22

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 06.06.2022

कोर में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन में विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजन के तहत त्रिवेणी विहार रेलवे कॉलोनी रामबाग में महाप्रबन्धक श्री अरुण कुमार, की अध्यक्षता में वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम "ओनली वन अर्थ" है, जिसका अर्थ "केवल एक पृथ्वी" स्वच्छ पर्यावरण में एक स्वस्थ मनुष्य का विकास होता है, इसलिए अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखना हमारी प्रथमिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है, लेकिन दौड़ती भागती जिंदगी व आधुनिक जीवन शैली को अपनाकर हमने अपने पर्यावरण को खतरे में डाल दिया है। दुनिया को इन खतरों से अवगत कराने के लिए व लोगों से इसकी देखभाल करने का संदेश देने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।

महाप्रबन्धक महोदय ने आज इस अवसर पर कहा की सभी लोग प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली अपनाने का संकल्प लें। प्राकृतिक संसाधनों के सतत दोहन से हो रहे विनाश के प्रति जन-जन को सतर्क व जागरूक करें।

इस अवसर पर केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन के सर्वश्री मुदित भटनागर-प्रमुख मुख्य इंजीनियर, एम.के.बेउरा-प्रमुख मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सुरेश कुमार-मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर, के.के.सिंह-मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर (प्लानिग)/ प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.एस.नेगी-मुख्य विद्युत अभियन्ता (प्लानिग), डी.के.श्रीवास्तव- मुख्य विद्युत अभियन्ता (एमपी), एस.के.मिश्रा- सचिव/महाप्रबन्धक, मुनी लाल-उप मुख्य इंजीनियर एवं अन्य अधिकारिगण तथा कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(एस.के.मिश्रा)  
मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी  
कोर/प्रयागराज